

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 43]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 22 अक्टूबर 2010—आश्विन 30, शक 1932

भाग २

स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं

कुछ नहीं